

Date: 09/09/2021

To,

The Listing Compliance Department,

BSE Limited,

P. J. Tower, Dalal Street,

Mumbai - 400001

Scrip Code: 534809

To,

The Listing Compliance Department,

National Stock Exchange of India Limited,

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai - 400051

Symbol: PCJEWELLER

Sub.: Newspaper publications - Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir / Madam,

The Company vide its letter dated September 8, 2021 informed your office that the 16th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 30, 2021 at 1:00 P.M. (1ST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means and a copy of the AGM Notice was also submitted with that letter.

In this regard the Company has published newspaper advertisements titled as "NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION" in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on September 9, 2021. Please find enclosed herewith copies of the aforesaid advertisements.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For PC Jeweller Limited

Company Secretary

Company Secretary

Encl.: As above

PC Jeweller Limited

NCLAT upholds NCLT's Devas liquidation order

THE NATIONAL COMPANY Law Appellate Tribunal (NCLAT) on Wednesday dismissed appeals filed by Devas Multimedia employees, representing shareholders and the senting shareholders and the ex-management, seeking to stay the May 25 order of the National Company Law Tri-tonual (NctD), Bangalore, that directed initiation of the liqui-dation process for Devas Mul-timedia.

"This tribunal has elabo-rately discussed the defence

artly discussed the defence raised by Devas in the winding-up petition. This Tribunal believes that the defence raised believes that the defence raised by Devas is not substantial, and Devas deserves to be wound up on the grounds of Section 271(c) of the Companies Act, 2013. Accordingly, the finding of the National Company Law Tribunal needs no interference from this appellate tribunal,

and both the appeals deserve to be dismissed, the NCLAT said in its 375-page order. On a petition filed by Antrix Corporation, an entity dealing in commercial business of spectrum under the control of the Department of Space and Indian Space Research Organi-sation, the NCLT directed the initiation of the limitation of

indian space Research Organisation, the NCLT directed the initiation of the liquidation process for Devas Multimedia on account of fraudulent conduct.

"The incorporation of Devas itself was with fraudulent motive and unlawful object to collude and connive with then officials of Antrix and to misuse/abuse process of law, to bring money into India and to divert it under dubious methods to foreign countries," the NCLT had ordered.

The NCLAT's Wednesday order also upheld the stand of Antrix and the Union of India that Devas was incorporated for fraudulent conduct.

'Numaligarh stake sale to Assam govt will improve OIL liquidity'

MOODY'S INVESTORS SER-VICE on Wednesday said Oil India (OIL) transferring 4.9% archolding in Numaligarh Refinery to the Assam govern-ment for ₹786.4 crore is credit ment for ₹78.6.4 crore is credit positive for the company, and will improve its liquidity and financial flexibility. The proceeds from the stake sale have been used to partially repay the short-term debt taken to acquire additional stake of the refinery in March 2021, the agency noted.

The company, in March, had acquired 54.2% stake in Numaligath Refinery from Bharat Petroleum Corporation (BPCL)

Petroleum Corporation (BPCL) for ₹8,676 crore. Of this, around al 10.5% stake — worth around ₹1,690 crore — was acquired on behalf of the Assam government with an understanding that the state would repurchase these shares in the ongoing fiscal.

Including the current sale, OIL has already transferred around 8.01% stake in the refinery to the state government, and Moody's expects the company to divest the balance stake over the next few months for ₹400 crore.

next few months for ₹40 Crore. The rating agency, in March, had downgraded OII/s baseline credit assessment to 'Ba1' from 'Baa3', expecting that borrowings to fund the acquisition of the Numaligarhstakewould put additional pressure the company's read it metrics. Moody's had, however, affirmed the company's 'Baa3' issuer ratings and senior unsecured bond ratings. The refinery stake sale was part The refinery stake sale was part of the BPCL disinvestment plan.

of the BPCL disinvestment plan. OIL's credit metrics were already ailing because of low oil and gas prices throughout 2020. As of March 31, the company had ₹4,300-crore debt maturing over the next 12 months, of which it has already repaid ₹3,170 crore so far.

PET

PEARL
Polymors Limited
No. L25/2001.1971/L005035
Regd. Office: A-5/72. Oxlea Industrial Area, Phisse II., Nev Delh - 10/200, INDA
Tablo: 91-14-7/205/200, Fax: 91-14-7/40/746,
Fmdt: cardifficationth, Website www.peripfa.nd

Email: pearl@pearlpet.net, Website: www.pearlpet.net
NOTICE OF 50 *** ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOKCLOSURE

NOTICE OF 92" ANNUAL CENTRAL MEETING, 5-VOTING AND BOOKCLOSURE

THE STREETS GYENT HAT:

THE 50" Annual Central Meeting (ASI) of the companywill be held on Thursday, September 30, 2021 at 12.00" HI brought Visice Conferencing (VC) Often Audo Visical Meeting (CAMM).

The 50" Annual Central Meeting (ASI) of the companywill be held on Thursday, September 30, 2021 at 12.00" HI brought Visice Conferencing (VC) Often Audo Visical Meeting (CAMM).

The 50" Annual Central Meeting Central Meeting Central Meeting Asia Central Meeting Asia Central Report for the firmanial year 2002-11, inter-alia including the e-voting instructions and condentials has been sent only through enal on September 62, 2021 to the Members, whose e-mail address are registered with the RTACOmpany or with the Depository Periopatria. These societorists has been sent only through enhanced from the velocities of the Company is www.papids red and also from the velocities of SEE Limited of two becomes to the Company is www.papids and address through the Company is www.papids and address through the Company is www.papids and 40 sites of SEE Companies (Management and Administration) Relate. 2014, as a mended from time to time, and Regulation 4 of SEEI (Listing Citigations and Declosure Requirements) Regulations. 2015, and MAC Enclosure, the company is provided precision of Securities (SEEI) (Listing Citigations and Declosure Requirements) Regulations. 2015, and MAC Enclosure, the company is provided precision of Securities (SEEI) (Listing Citigations and Declosure Requirements) Regulations. 2015, and MAC Enclosure, the company is provided precision of Securities (SEEI) (Listing Citigations and Declosure Requirements) Regulations. 2015, and MAC Enclosure, the company is provided precision of Securities (SEEI) (Listing Citigations and Declosure Requirements) Regulations. 2015, and MAC Enclosure, the Company of Securities (SEEI) (Listing Citigations and Declosure Requirements) Regulations of the societies (SEEI) (Listing Citigations and Declosure Requirements)

beyond said data and time. Once the vote or an resolution is cast by the member, heishelf after the allowed chargel is absequent view by premote evoling pair to the AGM may attend the AGM incurs who have casted their view by premote evoling pair to the AGM may attend the AGM incurs who have casted their view by premote evoling and the AGM. And are of the AGM and the AGM incurs who have captured the AGM and the

SC seeks status report from ED. police on probe against Unitech

THE SUPREME COURT on Wednesday asked the Enforcement Directorate (ED) and Delhi Police to file status reports on their investigations into the affairs of

tigations into the affairs of realty firm Unitech as well as its former promoters and managementofficials before September 30. A bench of Justices D Y Chandrachud and M R Shah directed that the status reports befled byboth the ED and Delhi Police in sealed

date of hearing on September 30. During the hearing, addi-tional solicitor general N Venkataraman,appearingfor the new board of management of the Unitech Group told the bench that two sub committees have been con-stituted. Venkataraman said negotiations will be held with Suraksha ARC, JM Financial ARC and Edelweiss ARC. The bench directed Suraksha ARC to hold discussions with the sub-committee about the cover giving the status of settlement in two weeks and investigation before the next apprise the court about it.**PTI**

STANDARD SURFACTANTS LIMITED

Repd. Office: 8/15 Anya Naga-Karona-70000C Phone No. 0512-2531762
e-mail: headoffice@standardsartactants.com: Website: www.standardsartactants.com
NOTICE OF THE 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION
AND BOOK CLOSURE INTIMATION

NOTICE OF THE 32nd ANNUAL CENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION NIOSE is brothly give that the 32nd Annual General Meeting of the (ADM) of the Members of Niose is brothly give that the 32nd Annual General Meeting of the (ADM) of the Members of Niose is brothly give that the 23nd Annual General Meeting of the (ADM) of the Members of Niose Administration (ADM) and Annual A

etow:-. Date and time of commencement of remote e-voting period: 27th September, 2021 (9:0

1. Date and since of commencement of remote e-vering period. 27th September. 2021 (3:00 AM)
2. Date and since of close of remote e-vering period 29th September 2021 (5:00 PM)
2. Date and since of close of remote e-vering period 29th September 2021 (5:00 PM)
3. Female e-vering through electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 PM on 29th A-The case followed by the commencement of the e-vering in 24th September 2021. A period vering the commencement is considered in the register embersor in the scale of the desire of the scale of the scale

For Standard Surfactants Ltd Sd/



Modica is hereby given that the 16th Annual Cameral Relating (2 AGM) of PC Javeder
Limited (the Company) will be held on Thursidy, Sepherine 20, 2621 at 100 PA
Limited (the Company) will be held on Thursidy, Sepherine 20, 2621 at 100 PA
Limited (the Company) will be held on Thursidy, Sepherine 20, 2621 at 100 PA
Limited (2 Agm) will be provided to the Company of Page 20 P

responsively and seal on the weasted of kin in fact midegies Private Limited ("Kirih") at his Jeroding Alfrich com. If a compalisine with provisions of Section 100 of the Companies (Naragadinat and Ammistration) Rules, 2014 and Red 201 for Companies (Naragadinat and Ammistration) Rules, 2014 and Red 2015 for Companies (Naragadinate) Red 2015 for Companies (Naragadinate) Red 2015 for Companies (Naragadinate) Red 2015 for Section 2015, the Company is providing to the Members the Boliky to exercise their right to selve juvidention means on the business specified in the AGM Red 2016 for any of the Section of the Section of the Section of the Section Red 2015 for Section 100 for Sec

and end on Weshesday, September 28, 2021 of 500 PM, MST) and nonremote-evoling darked be allowed the mobile an man space in Popular of Mannes in 120 state of 120 state. Only those Members, who september 20, 2021 (*Col-40** Dath*) shall be entitled to crist fitnosphrendor exposing and the AcAII and their ording rights but be in proportion to heir alternative through remote exposing and the AcAII and meter ording rights but be in proportion to heir alternative through the second part of the Company as on the Cucleff Date, shall be approximate to the Acai and t

respective Depository Participant(3).

2. Members holding stansis in physical form can send a request to KFin at the e-trail address - enhanced ringlikente, how a long with this scanned copy of signal request letter mentioning their fish in number, mene and address, scenned copy of a signal request letter mentioning their fish in number, mene and address, scenned copy of a signal request letter mentioning their fish or number, mene and address, sconned copy of any accounted (spir, Address, Sconnegal test), their care to the self-address contained (spir, Address con

Place: Mumbai Date: September 08, 2021



NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF THE SCHEMES OF PPFAS MUTUAL FUND

Notice is hereby given to all the investors / unit holders that PPFAS Trustee Company Private Ltd. (the Trustee to PPFAS Mutual Fund') has decided to carry out following changes to Scheme Information Document(s) (SIDs*) and Key Information Memorandum(s) (KIMs*) of the schemes of PPFAS Mutuals Fund (the Tund'), as applicable.

ion of Existing Features of Systematic Investment Plan (SIP) & Introduction of new features of SIP

Type of SIP	Default Date	Minimum Installments	Min No. of installments	Minimum Total SIP (in Rs.)	Existing Frequency date	
SIP for Pa	arag Parikh Flexi Cap	Fund (Formerly known a	s Parag Parikh L	ong Term Equity F	und)	
Monthly	10th of every Month.	Rs. 1,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	6	Rs. 6,000	1st, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th of every Month	
Quarterly	10th of First month of every Quarter.	Rs. 3,000 in multiples of Re. 1 thereafter	4	Rs. 12,000	1st, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th of every caler quarter beginning i.e. Jan / Apr / July / Oct	
SIP for Pa	arag Parikh Tax Saver	Fund				
Monthly	10th of every Month.	Rs. 1,000 & in multiples of Rs. 500 thereafter	6	Rs. 6,000	1st, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th of every Month	
Quarterly	10th of First month of every Quarter.	Rs. 3,000 in multiples of Rs. 500 thereafter	4	Rs. 12,000	1st, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th of every calendar quarter beginning i.e. Jan / Apr / July / Oct	
SIP for Pa	arag Parikh Liquid Fun	ıd				
Monthly	10th of every Month.	Rs. 1,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	6	Rs. 6,000	1st, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th of every Month	
SIP for Pa	arag Parikh Conservat	tive Hybrid Fund				
Monthly	10th of every Month.	Rs. 1,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	6	Rs. 6,000	1st, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th of every Month	
Quarterly	10th of First month of every Quarter.	Rs. 3,000 in multiples of Re. 1 thereafter	4	Rs. 12,000	1st, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th of every calen quarter beginning i.e. Jan / Apr / July / Oct	

It is proposed that the existing features of SIP facility be modified, giving Investors the option of selecting any c (Six) frequency dates per application of his / her preference as the SIP Debit date under the monthly and quarterly frequency in Parag Parkh Flox Cap Fund (PPFCF). Parag Parkh Tax Saver Fund (PPFCF) and Parkh Conservative Hybrid Fund (PPCHF) and under the monthly frequency in Parag Parkh Liquid Fund (PPCF) instead of selecting only the pre-defined dates.

Investors can select a minimum of 1 (One) date and a maximum of 6 (Six) dates of their choice within the month and/or quarter per application

Also, it has been decided that in addition to the Monthly frequency, investors can now also select the Quarterly frequency under Systematic Investment Plan (SIP) facility offered in Parag Parish Liquid Fund (PPLF). Investors can select a minimum of 1 (One) date and a maximum of 6 (Six) dates per application of their choice within the quarter as per revised features provided in table below.

The Revised Features (including Modification & Introduction of new Frequencies) under Systematic Investment Plan (SIP) facility provided will be as follows:

Type of SIP	Default Date	Minimum Installments	Min No. of installments	Minimum Total SIP (in Rs.)	Revised frequency date	
SIP for Pa	arag Parikh Flexi Cap	Fund (Formerly known a	s Parag Parikh L	ong Term Equity F	und)	
Monthly	10th of the Month.	Rs. 1,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	6	Rs. 6,000	Any date within Month (up to a maximum of 6 dates per application)	
Quarterly	10th of First month of the Quarter.	Rs. 3,000 in multiples of Re. 1 thereafter	4	Rs. 12,000	Any date within Quarter (up to a maximum of 6 dates per application	
SIP for Pa	arag Parikh Tax Saver	Fund	7 3		1000	
Monthly	10th of the Month.	Rs. 1,000 & in multiples of Rs. 500 thereafter	6	Rs. 6,000	Any date within Month (up to a maximum of 6 dates per application	
Quarterly	10th of First month of the Quarter.	Rs. 3,000 in multiples of Rs. 500 thereafter	4	Rs. 12,000	Any date within Quarter (up to a maximum of 6 dates per application)	
SIP for Pa	arag Parikh Liquid Fur	ıd	18			
Monthly	10th of the Month.	Rs. 1,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	6	Rs. 6,000	Any date within Month (up to a maximum of 6 dates per application)	
Quarterly	10th of First month of the Quarter	Rs. 3,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	4	Rs. 12,000	Any date within Quarter (up to a maximum of 6 dates per application)	
SIP for Pa	arag Parikh Conservat	tive Hybrid Fund	87		1.30	
Monthly	10th of every Month.	Rs. 1,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	6	Rs. 6,000	Any date within Month (up to a maximum of 6 dates per application)	
Quarterly	10th of First month of every Quarter.	Rs. 3,000 in multiples of Re. 1 thereafter	4	Rs. 12,000	Any date within Quarter (up to a maximum of 6 dates per application)	

Note: In case the chosen date falls on a Non-Business Day, then the SIP will be processed on the immediate next Business Day All other terms and conditions pertaining to SIP facility provided under the Schemes of PPFAS Mutual Fund shall remain the same.

The Trustee/AMC reserves the right to change/modify the terms and conditions of the SIP in future 2. Modification of existing Features of Systematic Transfer Plan (STP) & Introduction of new features of STF

The Exist	ing Features of the Syst	tematic Transfer Plan (STP	facility provided (under the Schemes	of PPFAS mutual Fund are as follows:				
Type of STP	Default Date	Minimum Installments	Min No. of installment		Existing Frequency date				
STP for Parag Parikh Flexi Cap Fund, Parag Parikh Liquid Fund and Parag Parikh Conservative Hybrid Fund									
Monthly	10th of every Month.	Rs. 1,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	6	Rs. 6,000	1st, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th of every Month				
STP for F	Parag Parikh Tax Save	r Fund							
Monthly	10th of every Month.	Rs. 500 & in multiples of Rs. 500 thereafter	6	Rs. 3,000	1st, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th of every Month				

It is proposed that the existing features of STP be modified, giving Investors the option of selecting any 6 (Six) dates per application of his / he preference as the STP Debit date under the monthly frequency in all the schemes of PPFAS Mutual Fund instead of selecting only the pre-defined dates Investors can select a minimum of 1 (One) date and a maximum of 6 (Six) dates per application of their choice within the month.

In addition to the Monthly frequency, Investors can now also select the Daily, Weekly, Fortnightly and Quarterly frequencies under the Systematic Transfer Plan (STP) facility provided.

The Revised Features (including Modification & Introduction of new Frequencies) under Systematic Transfer Plan (STP) facility provided will be as

follows:	90	100				
Type of STP	Default Day/ Date	Minimum Installments	Min No. of installment	Minimum Total STP (in Rs.)	Revised frequency day/date	
STP for Pa	arag Parikh Flexi Cap	p Fund, Parag Parikh Liqu	id Fund and Para	g Parikh Conserva	ative Hybrid Fund	
Daily	Daily	Rs. 1,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	6	Rs. 6,000	Any day between Monday to Friday	
Weekly	Every Monday of the week	Rs. 1,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	6	Rs. 6,000	Any day of the week	
Fortnightly	Every Monday of the alternate week	Rs. 1,500 & in multiples of Re. 1 thereafter	4	Rs. 6,000	Any date within 15 days	
Monthly	10th of the Month	Rs. 1,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	6	Rs. 6,000	Any date within Month. (up to a maximum of 6 dates per application	
Quarterly	10th of First month of the Quarter	Rs. 3,000 & in multiples of Re. 1 thereafter	4	Rs. 12,000	Any date within Quarter (up to a maximum of 6 dates per application)	
STP for Pa	arag Parikh Tax Save	er Fund*	A. 10			
Daily	Daily	Rs. 500 & in multiples of Rs. 500 thereafter	6	Rs. 3,000	Any day between Monday to Friday	
Weekly	Every Monday of the week	Rs. 500 & in multiples of Rs. 500 thereafter	6	Rs. 3,000	Any day of the week	
Fortnightly	Every Monday of the alternate week	Rs. 1,000 & in multiples of Re. 500 thereafter	4	Rs. 4,000	Any date within 15 days	
Monthly	10th of the Month	Rs. 500 & in multiples of Rs. 500 thereafter	6	Rs. 3,000	Any date within Month. (up to a maximum of 6 dates per application)	
Quarterly	10th of First month of the Quarter	Rs. 3,000 & in multiples of Rs. 500 thereafter	4	Rs. 12,000	Any date within Quarter (up to a maximum of 6 dates per application)	

se note that scheme Parag Parikh Tax Saver Fund is subject to a lock-in period for 3 years, Hence, STP option is applicable to Free units only.

The Revised Features will be effective from 09th September, 2021.

Note: In case the chosen date falls on a Non-Business Day, then the STP will be processed on the im The Trustee/AMC reserves the right to change/modify the terms and conditions of the STP.

All other terms & conditions of the SIDs / KIMs of the schemes of the Fund, as applicable, will remain unchanged.

This addendum forms on integral part of Scheme Information Document(s) / Key Information Memorandum(s) of Schemes of PPFAS Mutual Fund, as applicable or PPFAS Mutual Fund as amended from time to time.

For PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Name of Mutual Fund: PPFAS Mutual Fund For more information please contact:
PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager for PPFAS Mutual Fund)
CIN No: - U65100MH2011PTC220623

CIN No. - U65100MH2011PTC220623

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramnath Goenka Marg, 230 Nariman Point, Mumbai - 400 021. INDIA.

Tat.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590. E-mail: mt@p0p1as.com. Website: www.amc.ppfas.com. Toll Free Number: 1800-266-7790.

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY New Delhi

financialen epon in



पीसी ज्वैलर लिमिटेड

16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई—बोटिंग की जानकारी

हमार पुरस्का में आसी है कि सानी सीमीमार 2013 और दारको अपनीय नामार परिमाणी, सिंदर सीमीर मार्का में संप्रधाद हुए अपनी के स्वार के स्वार हुए साम कि सीमीर मार्का में स्वार हुए के स्वार के स्वार हुए के स्वार के स्वार हुए के स्वार के स्वार हुए हुए के स्वार हुए के स्वार

हता है। है 4-हिरिय के शबंध में ओई भी प्रस्त है, तो सदस्य bitps://www.long.kintach.com प जूद सहारवार एवं एफ्एसबू अरुमार्ग का सत्त्व से सकते हैं या कोणिय के टीस की नंब १०-१०%-१०% पार्ट की तम दरवारों हैं। एक्ट्र पर शिक्तिओं अभी तक अरुमार्ट है-से एक्ट्र पर जो नहीं किया है से अनुरोध है कि ये नीचे ये ब्रिकेट को पर के प्रस्ता के प्रस्ता के प्रस्ता के प्रस्ता के प्रस्ता के स्वाप्त के प्रस्ता के स्वाप्त के प्रस्ता के प्रस्ता के प्रस्ता के प्रस्ता के स्वाप्त करने कोणिय है से अनुरोध है कि ये नीचे ये ब्रिकेट कोणिय के स्वाप्त के प्रस्ता के प्रस्ता के स्वाप्त करने स्वाप्त के स्वाप्त करने प्रस्ता के स्वाप्त करने की स्वाप्त करने के स्वाप्त करने की स्वाप्त करने के स्वाप्त करने के स्वाप्त करने के स्वाप्त करने की स्वाप्त करने के स्वाप्त करने के स्वाप्त करने के स्वाप्त करने की स्वाप्त करने के स्वाप्त करने के स्वाप्त करने के स्वाप्त करने की स्वाप्त करने स्वाप्त के स्वाप्त करने स्वाप्त करने के स्वाप्त करने के स्वाप्त करने स्वाप्त के स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त के स्वाप्त करने स्वाप्त के स्वाप्त करने स्वाप्

मान उपना ई-मेल पता दर्ज ने स्वर कार प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्राथमिक मान स्वर प्राथमिक कर में होगा पता दर्ज ने स्वर कर है होगा पता ने स्वर के स्व

कृते पीसी ज्वैलर लिमिटे

KRBLLimite

स्थानः दिल्ली दिनॉकः ८ सितम्बर, २०२१

CIR. D. L. Limited
CIR. 1041110119391-0052940
पंजी, कावार, 5190, लाती गैंग, हिस्सी - 110 006
कोन: 1951-112565328, फैन्सा: 1951-112565327
देनेल: investor@kirblinda.com, पेरसाइट: www.kibirice.com
284ी वार्षिक साधारण बैठक की सूचना, रिमोट है-वारिन और
युक कांच्या की जानकारी आदि

परद्वारा सुष्कि किया है कि संगो किया है कि संगो किया है । एवस्तु का सुष्कि किया है कि संगो किया है कि संगो किया है । एवस्तु के अधीन नाम पर निगमें तथा सीनी (मूर्तिकन प्रतिस्त एवं प्रकटन आवश्यकाराएं) विनिध्य 2015 के बाध्य पतित अभिरिट कार्य मजावय द्वारा असी किये गये सामान्य मध्यक्त 14, 120,000, 17, 12000, 20, 2000 और १८ 20,000 मार १८ 20,000 कार १८

क्षण क्षणां का करणनाय हुं कावावावी की आएगा। पुराविष्य परिचय और सेवी परिचय के बच्चे में उठकी प्रतिपत्त की बुचना और वार्षिक रिचार्ट का परस्यों को इतेब्द्रशिक प्रकृति में गोजी का चुकी हैं जिनके हैं—कि वा करूपी या क्षित्रीय गोजीवर(ही) के साथ प्रतिकृत हैं। तभी प्रवस्ता के साम-मंत्रिक अधिया गेजने की आवायकताएं, एमसीए परिचय और सेवी परिचय के साथ अध्यादक हरिवार गाम है।

कट-जॉफ तिथि शुक्रवार, 17 रिस्तम्पर, 2021 को गीतिक आरुप या विमेटिरियलाइरूप प्राप्तम में शेमर धारण करने वाले पारत्याण संस्कृत विमोतिकारी वर्षिनेका दुविसा विमिद्धित दीविसायला के इतेनदीतिका नीतिकार विद्यार पिता के नीतिकार के विस्तित के नीतिकार के विद्यार के नीतिकार के सं प्राप्तम की पूर्वामा में निमोतिकार पर वाला बाँद इतेनद्वितिकारी से सकते हैं इसके अतार, कार्यों का संविद्या की मुश्लिक विभाग जाता है के नि

- रिमोट ई—वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि व समयः सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (प्रात: 9.00 बजे)
- रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि व समयः बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 (साथं 5.00 बंधे)।
- ्यान 3.00 बज)। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम क्रिपोजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर य लागावीं स्थानी के प्रिक्टर में निर्देश्ट तिथि क्ष्मांत शुक्रवार, 17 मिताबर, 2021 को दर्ज हैं, कोस्त बाति स्मिट ई-मीटिंग के साथ ही साथ एजीएम में बोट देने का पात्र होगा।
- का पात होगा। एजीएम बी मुचना के प्रेमण के बाद कंपनी के शेक्से का अधिगृहण करने कंपनी के सदस्य बनने वाले व्यक्ति, एजीएम के गोटिस में क्या वर्णित प्रक्रिय पालन करते हुए अथवा hejdesk-moling@cdsinda.com, imesing@chinda और na@almidi.com पर अनुशेच मेज कर लॉगिन आईडी और मासवर्ड कर सकते हैं।
- कर राज्य है। वे सदस्य जो भोतिक रूप में शेयर रखते हैं, जिनके ईमेल पर्वे कंपनी के सार पंजीकृत नहीं हैं, वे निम्नलिखित दरवावेजों की प्रतिविधि ईमेल द्वार invasta@kbilindia.com व rla@alankii.com पर मेजकर खपना ईमेल मता पंजीकृ
- एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र जिसमें आपका नाम, फोलियो संख्या और पूरा पता हो. शेयर प्रमाण पत्र (सामने और पीछे) की स्कैन की हुई कॉपी;
- रायर अयान पत्र (सामन आर पाछ) का एकन का हुई काया, पैन कहरें की रून-स्तायित रुकेन कॉसी, तथा कंपनी के साथ पंजीवरण के रूप में सदस्य के पत्रे के प्रमाण के समर्थन मे दरतावेज (तेसे आधार कार्ट, हाइविंग लाइसेंस, बोटर पहचान पत्र, पाससोट) कें स्ट-सरायादित स्क्रीन की गई प्रति ।
- स्थ-सरवाधित स्थीन की गई थि। स्थित हुं नीहिंग के नायान में जावान की अनुमति बुधवार, 20 शिवान्स, 2021 को सार 05:00 करों के बाद नहीं दी आएमी। इसके बाद बोटिन के लिए हुं---वीटिन मील्यून को सीकीएसएस द्वारा निष्क्रिय कर दिया आएमा। 2क्वी एपीएम और नार्षिक रिपोर्ट की गूचना कंपनी की बेनवाइट काल्य धार्मास्ट करा स्थान स्थान
- www.erosegnona.com पर अपलब्ध है। वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोर्ट ई—मोटिंग द्वारा अपना मतदान दिया है, एजीएम में भी माग ले सकते हैं परन्तु एजीएम पर फिर से अपना देने के हकदार नहीं होंगें।
- दन क करवार नहीं होंगे। किरोतों के लिए, सदस्य 28वीं एकीएम के मुश्ता निर्देशों के हैं इन्हेक्ट्रिकिक बोटिंग के स्वाप्त इंकट्रिकिक बोटिंग के साथ पूर्व किसी भी प्रस्त / शिकाराती के साथ पूर्व किसी भी प्रस्त / शिकाराती के साथ पूर्व किसी भी प्रस्त / शिकाराती के साथ पूर्व किसी भी प्रस्त है साथ के साथ है। स्वाप्त अस्य प्रस्त अस्य प्रस्त के साथ पूर्व किसी प्रस्त है साथ किसी के प्रस्त (इन्हरूपण) और ई-बोटिंग प्रध्योगकार्त पुरिसक्त का संदर्भ से साथ किसी किसी के साथ साथ किसी है। या अध्योगकार्त किसी किसी किसी किसी है। या अध्योगकार्त है या अन्त श्री कर सकते हैं।
- पर पायक कर सकते हैं।
 एकीएम के दीमन हुई श्यित् ई-बोटिंग/बोटिंग का परिमान शनिवार, as
 करतृद्ध 2021 को पास्त्रम पूर्व पिति की कारणा परिवार का किस्तार का करतृद्ध 2021 को पास्त्रम पूर्व प्रिति किया कारणा परिवार का शियोर्ट दें
 साथ मोशिय परिमाग कंपनी की बेनसाइट www.kinica.com पर चास्त्रम होग कर्मर इसकी मानकारी स्टॉक एनसमें जॉ, जहां कंपनी के शैयर सूचीबड़ है, को भी दी आएनी।

भी दी जाएगी।
एवं उत्तरणी।
एवं उत्तरणी अधिमान अने प्राचान ने तथा सेवी (मूर्वीयन अधिवार्वताएं
एवं उन्तरीकरण अधेवाएं) शिवामावर्ती, 2015 के वीचम, 42 के शाम पंतित एउनके अवर्धन नाम एवं प्राचान के अपूर्वात, एवंगा भी 2 तथी पश्चीम के देशन पश्ची दिवी प्राचान भी 2020 -21 के लिए अधिम लावांग के पृथाना के लिए पान नावांगे के धियांगा के प्राचान के स्थित प्राचान के धियांगा के दिव क्रांगी के उत्तरणों के वीचार उत्तर प्रीचान हमा हमा प्राचान के स्थित प्राचान स्थान के स्थान स्थान स्थान स्थान

स्थानः नोएडा, उत्तर प्रदेश दिनांकः 08 सितम्बर, 2021

www.readwhere.com

Citi-174899DL 1933PLC016713
E: apoorvaleasing@gmall.com. Www.wapoorvaleasingfinance.com
पंजीकृत कार्यात्य :गीसरी मंजिल, स्वॉक 13/331, गीता कारोगी,
दिस्ती-110031, Phone No. 1011-22446748
कारपीरेट कार्याद्याऱ्ती 119, संस्कर-31, गीतम बुस नगर, नीयडा,
उo.po-201301, PH: 0120 - 4372849

एजीएम, ई-वोटिंग एवं किताबी बंदीकरण के लिए सचना

www.aporovaleasingfinanc.com से भी डाउनसांड किया जा सरकता है। अच्चानित अधितियन 2013 की धारा 108 स्था में पेटील ब्यन्तित (ध्रम्ब एवं संसात किया है। यो की स्था कि संसोधित, एवं से सी दिस्तिया नियम 40 एवं अनुसार में कम्मी आपने सरस्यों को अपना योट देने के लिए इतलहानिक काय हाता है। अध्या सामित क्षेत्र प्रकार के स्था क्षेत्र सामित के अध्या सामित क्षेत्र होता है। अधित के स्था क्षेत्र सामित के अध्या सामित क्षेत्र होता है। अधित होता है। अधित प्रकार क्षेत्र सामित क्षेत्र होता है अधित होता है। अधित प्रकार होता है। अधित प्रकार होता है।

को सुरुवा में निर्मिट्ट पर (शिला—ई बोरिंग) के लिए एनएसकीएल ह्वारा ई-बोरिंग को सुविधा उदान की जा की है। सदस्यों में अनुरोध है कि ई-बोरिंग सोमापार 27 सिपान्य, 2021 (1918) असे प्राप्त के अनुरोध है कि ई-बोरिंग सोमापार 27 सिपान्य, 2021 (1918) असे प्राप्त पर समय होगी। कृपया मोट कर ही कि इस विधि एवं समय के उपरान्ता ई-बोरिंग स्वीकार नहीं होगी। कृपया के कर है कि इस विधि एवं समय के उपरान्ता ई-बोरिंग स्वीकार नहीं होगी। कृपया के स्वीदिंग सिपान्य के साम के उपरान्ता ई-बोरिंग स्वीकार नहीं होगी। कृपया के स्वीदिंग सिपान्य के प्राप्त को स्वीदंग सिपान्य के साम कर हमार्थ के साम हमार्थ हमार्थ के साम हमार्थ हमार्थ के साम हमार्थ हमार्थ

बोर्ड के आदेशानुसा कृते अपुरवा लिजिंग फाईनेन्स एण्ड इन्वेटमेंट कं० लिमिटेर

■OMAXE

Turning dreams into reality
OMAXE IUNITED (IUN L'4999HR 1889PL (0.51918)
Regt, Office: Stop No-19 B, Frist Floor, Omaxe Celebration Mall,
Schane Rand, Gurgam, Hagnaris L'2001;
Corp. Office: Omaxe House, 7. Local shopping Complex, Kalkaji, New Delhi-1
Eli: 011-4186680 AB, Fax; 011-4186680;
Email: socrolanil. 1 (§omaxe com | Website www.omaxe.com

NOTICE

NOTICE OF 32** ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

uant to the provisions of the Companies Act, 2013 (the "ACT) and Falles framed united and the SERI Library Collapsions and Disclosure Requirements (Regulations of Library Regulations (Library Collapsions) and Disclosure Requirements (Regulations of STAMCA Colladar') and also Circalar's sound by the Second as deady by Membrary of Collapsian of STAMCA Colladar's and also Circalar's sound by the Second Regulation (STAMCA) and Second Refetting (STAMCA) and the STAMCA COLLAGAR (STAMCA) and SECOND (STA

seatedAM.

In compliance with the provisions of MAX valle its Concale No. 1,47000 district April 8, 2000.

Dersoal No. 177,000 district April 8, 2000.

Ders

Final makes united at UNU Implication extraction and with fault 20 of the Companies (Management and Administrations Relate, 2014 and Regulation 44 of \$581 (Listing (Management and Administrations Relate, 2014 and Regulation 44 of \$581 (Listing (Management and Administrations Relate) and Regulations, 2015. The formaps in placed to provide the facility to Membres to exercise their right to vale by electronic means on proceed resolutions to parcel and 640. The voltage right of Membres shall be as per the number of equity shares field by the membres as on the autorithment distribution of the matter of equity shares field by the membres as on the autorithment distribution through, Geystement 22, 2012. A party modes man as recorded in the Register of table of the shares of the shares of the shares of class only shall be entitled to avail the facility of remote e-verling and to participate in the meeting.

Interiors, The e-voting period commences on Monday, September 27, 2021 at 9,000 a.m. (87) and ends on Wednesday, September 22, 2021 at 5,00 p.m. (87). The e-voting models shall be disabled by Link Himme fold Privital: Limited for virtigal treasurity. Core the vet on a resolution is cast by the shareholders that shareholders shall not be allowed to change it subsequently. The remainest with only him cast better vite through render e-voting may perfocuse in the ARM through VCOMM facility but shall not be allowed to call their votine again through e-voting rendering forms (and some facility).

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday September 23, 2021, may obtain the login ID and passwerd by sending a request at instament@linkintime.co.in or contact or 022-48166175.

The interview and interview of COMMICTOR (1998-1998) and the detailed instructions for e-writing which from posterior de inchance using spices and the time detailed instructions for e-writing which from part of the Nideold 220x4 Annual Centeral Microling before exercising your view of the part of the Committee of the Committee

Members who have not registered their entitle D will the depository participation who have not registered their entitle D will the depository participation required to register their entitle D with their depository participation is respect, held in electronic form and in respect of shares held in physical form, are registered their section of the properties of their participation of the countries of the depository participation investors of the respect of the properties of their participation in access properties of their participation of the participation of the participation of the participation of their participation of the participation of

Members may participate in the AGM through VC/ DAVM at https: instancel linkintine.co.in / by using their remote e-volting login rendertiels and select the Evert for Corpuny's AGM. Members who do not have the blue ID and Password for volting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following I remote e-volting instructions metitioned in the Notice.

Integr. // reactioned. International cook.

The Earliety of picting in EAM Enropal, WC / DAMM shall open 15 minutes before the films exhecked infor the AAM enropal was been able to a feet to the control to the contro

-

By order of the Board For Omaxe Limited

Place: New Delhi Date: September 08, 2021

Sd/-Navin Jain any Secre*

dusind के इंडसइंड बैंक लिमिटेड

स्थान करवार करवार करवार वा स्थान करवार पार्थ्य करवार करवार पर त्या करवार करवार पर त्या करवार करवार पर तथा करवार करव

एकाइन कंतरु व्यक्तम प्रतिन्द (संक्रमण के नाम एक पक्ष एकाइन कंतरु व्यक्तम प्रतिन्द (संक्रमण के व्यक्त नामकी) प्रति च 27, मूलकार करियोगी, विश्वाद, लक्ष्मक, उत्तर प्रदेश-22705 तबस्सुम अस्पर, प्रतिद्वाद अस्पर, और विशाद अस्पर, आर्थिका गोगाती नारा, एक्ष्मक, उत्तर प्रदेश-226010 प्रतिमृत आर्थिक का विद्यवरण

प्रस्तिक के विकास प्रतिकृत अपित का विकास स्थानकार्य के प्रतिक करना दे अध्यक्तार्य के प्रतिक करना दे अध्यक्तार्य के प्रतिक स्थान दे अध्यक्तार्य के प्रतिक स्थान दे अध्यक्तार्य करना दे अध्यक्तार्य करना दे अध्यक्ता स्थानकार दे अध्यक्त स्थानकार दे अध्यक्त स्थानकार प्रतिक स्थानकार दे अध्यक्त स्थानकार करना दे अध्यक्त स्थानकार करना दे अध्यक्त स्थानकार दे अध्यक्त स्थानकार दे अध्यक्त स्थानकार करना स्थानकार करना स्थानकार स्

जा राखाता नहीं विल्लिका कर्यंदी में उस गुणना के प्रकारन में किये से 40 दियों के लिए जाति जा राजना, प्रमान, जो कर्ती क्रांत प्रमुख कर्त्वा किया प्रकार का भावना कर के करार है किया में करार राजने पर एस कच्छा देने तथा प्रतिकृति आसित की क्षित्रों स्वित गूर्ण कम से आपके संविध्य और लागा । प्रीकृति किया प्रवर्धित कराने के लिए क्या करें। एक्या मान रें किया प्रकार के अधिका क्षेत्रों के साथ 13 (13) के ताल कर्मदार किया की गूर्व विविधा सहस्त के लिया उपयोग्ध क्रिकेश अधिकारों में में क्षित्रों का भी अलगार क्रियों, पार्ट मा अन्य विधि ने तारी म में माना आक्री हाता में करान क्षित्रों माना में मी अलगार क्षित्रों माना में अलगार क्षित्र मार्टन मा अस्त विधि न

तिथि : 08.09.2021 स्थान : नई दिल्ली कृते इंडसइंड बैंक, प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

भा य अपने लिए कार्या टेन्साह्म 10 YOUSINGS 1911 शाखा कार्यालयः जनकपुरी, नई दिल्ली कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) {प्रतिभृति हित (प्रवर्तन), अधिनयम 2002 के नियम 8(1) के तहत

त्तीय आस्तियों के प्रतिमृतिकरण और पुनरिमाण तथा प्रतिमृति हित 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7. मई दिल्यी शाखा का प्रतिकृत अधिकारी होने के नाते तथ तत (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुस्केट प्रावन्तात (इस (प्रवन्त) तथान, 2002 के तथान 3 क सोवा यह जावे हुए अबोहस्ताबारी ने नांग राइना दिनांक 04/05/2021 जारी की थी, जिसके द्वारा <u>कर्णवार</u> सीमती लिला करारिया पत्नी श्री बन्द भकाश करारिया प्र सीमती लिला करारिया पत्नी श्री बन्द भकाश करारिया प्र <u>साह कर्जवार</u> भिस्र आयले करारिया पुत्री श्री चन्दर प्रकाश करारिया, को शृश्या में उल्लिखित राशि र.11,99.437.25 (मायस्त लाख निम्यानके हजाद बार सी सीती रूपये पत्नी से सी मात्र) वस्त सूचना की प्राचित के 60 दिनों के मीतर युकाने के लिए कहा गया था। कर्जवार के इस राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, कजीदारों तथा आम जनता को एतदहारा चित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की शारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्परित का कब्जा दिनांक** 08.09.2021 को ले लिया है। **कर्जदारों** को विशेष तौर पर तथा आम जनत 9009-2021 जिल्ला है। कुजपुत्त का प्रवच पार पर पर वा जान जनात को सामान्य तीर पर एतदहारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साध किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रू.11,99,437.25 (ग्यारह लाख निन्यानबे हजार चार सौ सैंतीस रूपये १५.11,99.437.25 (म्यारट लाख निन्यानं इंजार चार तो रीतीस रूपये पच्चीस पैसे मात्र) और उस पर प्र्यान के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनकपुरी, नई दिल्ली शाखा के प्रगार के नुगतान के अभीन होगा। आपका ध्यान सुरक्षित सम्मरित को सुरुनों के लिए उपलब्ध समय के संदंब में अधिनियम के अनुकेद (13) के उप-अनुकेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

्राक्ष के उप-अनुस्तेद (a) के प्र अवस सम्मत्ति का विदरण सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जिसमें रिक्षत सम्पत्ति सामित हैं: पत्तेट नं 358. ठीडीए जनता पत्तेट, पंकिट-2, परिश् गई दिल्ली-110053, शेत्रफल परिमाप 500 वर्गफीट। जो चिरा हैं:-पूर्व दूसरों की सम्पत्ति उत्तर दूसरों की सम्पत्ति पश्चिमपुरी

पश्चिमः दूसरों की सम्पत्ति दक्षिणः रोड

स्थानः नई विल्ली तिथिः 08/09/2021 प्राधिकृत अधिकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI

र्बें क ऑफ इंडिया सम्पत्तियों को ई-नीलामी- 27.09.20 बैक ऑफ इंडिया, जांचितक कार्यात्वर, पई दिल्ली जोन, "स्टार हाउता", एव -2, कनीट सकंग, मध्य / बा सर्वेन, पीवीयार पताजा हाँत, मुद्दं दिल्ली के वागीय - 110001. छोन नंबर 011-28844699

ई—नीलामी की सूचना प्रतिमृति हित (पवर्तन), नियमवर्ती, 2002 के नियम 8 (६) के प्रावधानों के साथ पदिव बित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के जन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिकी के लिए ई—निलामी बिकी सूचना।

तदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से जागा जाता होता. (१८००) जिल्ला विश्वल मोनी दिया गया है, को सुनित किया जाता है है जी मीचे बॉली प्रतीन्त्रीह व्यवता अर्थात के पास गिरते, पार्चत अपन सांकित तिले के जीव बॉली प्रतीन्त्रीह व्यवता अर्थात के पास गिरते, पार्चत अपन सांकित तिले के आंक द्वीरया के आधिवत्त अर्थाकारी द्वारा कजात तिल्या गया है, दिनांक 27.00.2021 को प्रता 1.100 से सांच 05.00 को के बीच पार्चत, निराम करा है, कि सांच के प्रतिकृति होता अर्थात के प्रतिकृति करण एवं पुनिर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियर, 2002 के अन्त जात है, "जो है" के आधार पर ई-नीतानों की जायंगी।

ह जा है के आधार पर इन्यालाय प्राणाया। ब्राने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैं: वसूली जाने वाली राशि (सुरक्षित ऋण) और कब्जे के विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उलि

क. सं.	उधारकर्तां(ओं)/ गारंटर(ओं)/ बंधक(ओं) का नाम	संपत्ति का विवरण	कुल बकाया	अ. आर्रीक्षेत मूल्य ब. ईएमठी स. वृद्धिशील बोली	अधिकृत अधिकारी संपर्क नंबर के साथ
1.	 मैससे बींन गार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड ितरेशक/गारंटर: श्री राकेश बंसल तिरेशक/गारंटर: श्री सनीह प्रकाश बंसल नियेशक/गारंटर: श्री तुधार बंसल विस्ति स्ति । 	(आवातीय) परंट न की -1205 ए 12 वी मंत्रित्त स्वीक-की एससीसी सीकर, खास नंबर 1010, 1011 और 1012, जा नगर एसरोडेंका, एमएच 88, ग्राम पूर नगर, परना सीनी ग्राधियाबद, जारा घरेंका में श्री तुमार बंसल के स्वामित्व में क्षेत्रफल -140.75 वर्ग मीटर। (यह संपादि बैंक के मीतिक कब्जे में हैं)	+ यूसीआई + अन्य शुल्क	अ. रु. 35.00 লাख ब. रु. 3.50 লাख स. रु. 10,000/-	चिरंजीया एन सिंह मो. नं. 6202980894 फोनः 011–23717344

ex.jsp के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली' प्रक्रिया के माध्यम से होगी।

2) इपकुक बोलीवाजों को eBkray पॉटेल https://www.mstoecommerce.com/auctior/tome/loop/pindex/spp पर आमान माम पंजीवृत्त कराना होगा और अमान/ अमाने पूजर आईड प्राथम अंगान अपना का क्षेत्र कराना होगा और अमान/ अमाने पूजर आईड प्रायस करना होगा और प्लोबल ईएमडी बॉलेट में ऑनलाइन ईएमडी को जाना करना होगा, तद्वारतन उन्हें उन्हा पोटल पर ई-नीलामी में माग लेने हेंचु अनुमति मिलेगी ।

3) नीलामी की तिथि और समय: 27.09.2021 को प्रात: 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक 10 मिनट के असीमित स्वत: विस्तार के साथ।

4) संपत्ति का निरीक्षण संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति के साथ 18.09.2021 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 04.00 बजे के बीच किया जा सकता हैं।

 ई-नीलागी, आरवित मूल्य प्लस प्रथम युद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। उपरोक्त तालिका में उल्लिवित गुणकों में बोलीवाता अपने प्रस्तायों में सुवार कर स्कंगें।
 इस्कुक बोलीवाता ई-ऑक्शन में सुनम भागीवारी के लिए ईएमडी यानी बोली की ताशि का 10% प्लोबल ईएमडी वॉलेट में आवश्यक दस्तावेजों / विवरणों के साथ 24.09.2021 से पहले eBkray पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर जमा कर लें।

तम/सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि बोली राशि बोली / खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।

a) बोली / खरीच राशि की लेण 75% उपि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विकी की पुष्टि के 15 वें दिन या उत्तस पहले (विकिंग कार्योदिवस के दौरान) या पुरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौत के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अधी के भीतर इस शेष चािर को जमा करने में असरक्त रहने पर जा

की गयी राशि को जब्द कर लिया जाएगा और प्राधिकत अधिकारी / बैंक के पास नीलामी रह करने और नई नीलामी आयोजित करने का पर्ण अधिकार होगा। कय होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और बैंक कोई दावा नह

10) विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक देखें — https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender/Type=3 11) यह प्रकाशन उपरोक्त उपारकर्ताओं / गारंटरों / गिरवीदारों को 15 दिनों का अग्रिम नोटिस भी हैं।

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 09.09.2021

Parsynaths

Parsynath Developers Limited Registered & Corporate Office: Parsonath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032 CN: 145201011990/E040945; Phone No: 011-4300500, 011-4305010; Fax No: 011-43050473 e-mail address: secretaria@parsanth.com; Website: www.parswath.com

30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने की पूर्णता, पुरित्तका बंद होने तथा ई—वोटिंग की सूचना

एकार वह सुचित किया जाता है कि एचीएम अयोगित करने की सूचना में उस्तिविक सम्मान का विशेष कामता के विधायत के दिए वार्षनाम अंकासने विभिन्नेक के सदस्यों की उक्ती वार्षिक अपने बैठल ("एजीएम") विकित्र के स्वार्थ की उक्ती वार्षिक अपने बैठल ("एजीएम") विकित्र कामते ("विभागित्र") को प्राप्त 1:30 को आयोगित की जानेगी। एमार्थन एका गीते हाम जाते विशेषन परिचत्रों के अनुवार विच्न में 2000-24 की क्यानी की मार्थिक की जानेगी। एमार्थन एका गीते हाम जाते विशेषन परिचत्रों के अनुवार विच्न में 2000-24 की क्यानी की मार्थिक किया विचार का एजीएम की सूचना की स्थान का प्राप्त की प्राप्त किया विचार की प्राप्त करने की सूचना को हैं—मैत हात्र में पर में जी जा पूजी है। उपयोक्त वार्षिक विचार का प्राप्त करने की सूचना को है—मैत हात्र में में में का कार्य की स्थान स्थान की हम्मत की सूचना को है—मैत हात्र में में में का कार्य की स्थान स्थान की सूचना की हम्मत हम्मत स्थान की सूचना की हम्मत हम्मत की सूचना की हम्मत हम्मत सूचन की सूचना की हम्मत हम

रयों ने अब तक अपने ई—गेल पते वजीकृत नहीं कराये हैं वे कृपया अपने सम्बन्धित कियोजिटरी भागीदारों के पास (वीगैट प्रारूप में शेयर धारिता ब लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आस्टीए) [मीतिक प्रारूप में शेयरवारिता के मामले में) के पास पंजीकृत करा लें ।

दरवं कृष्या ध्यान हैं कि रिमोर ई-जीटिंग प्रतिभा सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को घात: 900 बजे घारम होगी और बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को साथ: 5.00 बजे तक हो कोगी, इनके क्यान रिमोर ई-जीटिंग मिश्रहाए एएएखीएस हात निश्चिय कर दिया जागेगा। सिमी सदस्य हात किसी मदताब पर एक बार मदाना करें ने के उपस्य करें की परिवर्धन करते की कुम्बित मही होगी। देन त तरकों ने शिव्य: क-जीटिंग के साथम स्थानन की बिका है एंज्यीएम के दौर कक्ष्मितिक कर से अबने समाधिकार का पायों न कर कहते हैं। जिन सदस्यों ने एजीएम के पूर्व स्थित दौराम हातम मिश्रा है के भी एजीएम में बारीस्था रह सकते हैं जिन्तु वे एजीएम के दौराम दोकार सकते हैं।

www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड राज्य में उपलब्ध रोयरवारको द्वारा अलसर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ्परक्) तथा रोयरवारको के लिए ई-बोटिंग उपयोगकर्ता पुरिसका का सन्दर्भ लें या टोल क्री ने 1800 1020 990 राषा 1800 22 44 30 पर कॉल करें या <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर निवेदन भेजे।

कोई व्यक्ति हूं -रेज द्वारा सूचन तथा वर्षिक रिपेट भेते जाने के उपरान्त तरहाव बन जाता है किन्यु को कट-और तिथि तक शेरर धारण करना है वह वीती/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपरिवार हो सब्ता है। ऐसा सहस्य हूं-चीटिंग के कावम से अपने कातिकार का उपरोग वर करना है तक है। तथा वार्षिक रिपेट और एजीएम अमेरिक करने की मुक्ता हो एक विके हैं-चीटिंग को लिए मूक्त बढ़ती एया चरवाई बाय करने के विश्व कम प्रचारिक किरमों के प्रीती कहीं वर्ष कावूट काईकी/कोरियों के स्वीद कारटीए के वास investor@masserv.com एस वाय एक जीवें <u>secretarial@parswnath.com</u> एस कमनी के वास रिक्षीजीवन मेजें।

क उपर्युक्त परिपत्नों के अनुवार 20वीं एजीएम वीरी/ओएनीएम के माम्यम से आयोजित की जायेगी, अतः सदस्यों को भीतिक उपरिवर्ति की आवश्यकता सम्बन्ध कर दी गयी है। नुस्तर सदस्यों द्वारा प्रोक्ती की निपुरित की सुनिया उपराब्ध गरी होगी।

एतद्वारा यह सुबना भी दी जाती है कि अभिनियम की धारा 91 के प्रायकानी तथा सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 42 के अनुसार 30वीं एजीएम के चददेश्या से सदस्यों के रिजिस्टर तथा कम्पनी की शेवर अन्तरन पुन्तिकाएँ, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 से बृहस्परिवार,30 सितम्बर, 2021 (दोनो तिष्ठियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

निवेशक गंडल के आदेशानुसार कृते पार्श्वनाथ डेक्टलमें लिमिटेड हस्ता-(गंडन मिश्रा) कंपनी स्विय एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता स. ए-14374

दिनांकः 08, सितम्बर, 2021 स्थानः दिल्ली

00

000